

जीवन प्रमाणपत्र
LIFE CERTIFICATE

जन्म तिथि
Date of birth

नया बचत खाता/चालू खाता सं.
New Savings/Current A/c No.

पेंशन बुक/फाइल नं.
Pension Book/File No.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ डॉ. पेन्शन भुगतान
आदेश सं. के धारक हैं तथा वह आज को जीवित हैं ।
Certified that I have seen Pensioner Mr./ Mrs/ Dr.
(Name of Pensioner)
holder of PENSION PAYMENT ORDER NO. and that he/ she is alive on
the date.

स्थान
Place

प्राधिकृत अधिकारी/सत्यापन अधिकारी का नाम
Name of Authorised officer/Verifying officer

तारीख
Dated

प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम
Designation of authorised officer

(सील) एस.एस. नं./ (Seal) S.S. No.

पेंशनर के हस्ताक्षर
Pensioner's Signature

यदि पेन्शन का भुगतान किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा किया
जाता है तो बैंक के अधिकारी इस प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर
करने हेतु प्राधिकृत हैं ।
The officer of the Bank is authorised to sign this
Certificate, in case the Pension is paid by Banker.

बेरोजगार/पुनर्नियुक्ति के प्रमाणपत्र का फॉर्म
Form of Certificate of Non-employment/Re-employment

1. मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं मई/ नवंबर को समाप्त छमाही में किसी सरकारी विभाग/कार्यालय
अथवा केंद्र/राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र की कंपनी, कॉरपोरेशन अथवा स्वायत्त संस्था अथवा स्थानीय कोष में किसी भी
पद पर कार्यरत नहीं हूँ ।

1. I declare that I have not been serving in any capacity either in a Govt. Department/ Office, Company,
Corporation, Autonomous Body or a Society of Central or State Govt. or Union Territory or a Local Fund
during the half-year ended May/November

अथवा/OR

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं
में नियुक्त/पुनर्नियुक्त हूँ जो कि सरकार का अंग है/ से वित्तीय
सहायता प्राप्त है तथा मई/ नवंबर को समाप्त छमाही अथवा उक्त छमाही के अंतर्गत माह
में निम्नलिखित मासिक परिलब्धियां प्राप्त की हैं:

I declare that I have employed/Re-employed in the office of
which is a part of/ financed by Government and was in receipt of the
following monthly rates of emoluments during the half year ended May/ November or
during the month of filling within the said half year.

(क) वेतन रु.
विशेष वेतन रु.
(महंगाई भत्ता/अतिरिक्त महंगाई भत्ता सहित)

(a) Pay
Special Pay
(including D.A./A.D.A etc.)

अथवा/OR

- (ख) मानदेय राशि
(b) Honorarium

इसके अतिरिक्त, मेरी पुनर्नियुक्ति के दौरान आस्थगित मेरी पेन्शन को पुनर्नियुक्ति के आदेश अनुबंध नहीं करते ।
Further, that the orders of my Re-employment do not stipulate my pension being held in abeyance during the Re-employment period.

2. मैं घोषणा करता हूं/ करती हूं कि मैंने भारत में व्यापारिक रोजगार स्वीकार नहीं किया है ।
2. I declare that I have not accepted any commercial employment in India.

अथवा/OR

मैं घोषणा करता हूं/ करती हूं कि मैंने केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद भारत में व्यापारिक रोजगार स्वीकार किया है तथा सरकार द्वारा उससे संलग्न किसी शर्त, यदि कोई हो, का उल्लंघन नहीं किया गया है ।
I declare that I have accepted commercial employment in India after obtaining previous sanction of the Central Government and none of the conditions, if any, attached thereto by the Government has been violated.

नोट: यह घोषणा सेवानिवृत्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक दिए जाने हेतु मांगी गई है ।
Note: This declaration is required to be given for a period of two years from the date of retirement.

3. मैं घोषणा करता हूं/ करती हूं कि मैंने विदेशी सरकार/अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसकी भारत सरकार सदस्य नहीं है, के अंतर्गत रोजगार स्वीकार नहीं किया है ।
3. I declare that I have not accepted employment under a Government Outside India/an International Organisation of which Government of India is not a member.

अथवा/OR

मैं घोषणा करता हूं/ करती हूं कि मैंने विदेशी सरकार/अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसकी भारत सरकार सदस्य नहीं है, के अंतर्गत केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बाद रोजगार स्वीकार नहीं किया है तथा सरकार द्वारा उससे संलग्न किसी शर्त, यदि कोई हो, का उल्लंघन नहीं किया गया है ।
I declare that I have not accepted employment under a Government Outside India/an International Organisation of which Government of India is not a member after obtaining previous sanction of the Central Government and none of the conditions attached thereto by Government has been violated.

हस्ताक्षर/Signature

स्थान
Place

पेन्शनर का नाम
Name of Pensioner
पी.पी.ओ. नं./P.P.O. No.

तारीख
Date

बचत खाता/चालू खाता सं.
Savings/Current A/c No.

पता/Address

फोन नं./ Phone No.

विवाह/पुनर्विवाह हेतु प्रमाणपत्र
CERTIFICATE OF RE-MARRIAGE/MARRIAGE

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूं/ करती हूं कि मैंने पुनर्विवाह नहीं किया है तथा मैं ऐसी किसी भी घटना की सूचना तत्काल पेन्शन जारी करने वाले प्राधिकारी/बैंक को देने को वचनबद्ध हूं।

(केवल विधवा परिवार पेन्शन पाने वालों के लिए लागू तथा केवल एक बार प्रस्तुत किया जाना है)

I hereby declare that I have not got re-married and I undertake to report such any event promptly to the Pension Disbursing Authority/Bank.

(Applicable only for widow recipient of family pension and to be furnished only once)

अथवा/OR

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूं/ करती हूं कि मैं अविवाहित हूं/मैंने पिछले पांच माह के दौरान विवाह नहीं किया है।

(केवल विधुर तथा अविवाहित पुत्रियों द्वारा प्रत्येक छह माह अर्थात् मई तथा नवंबर में एक बार प्रस्तुत किया जाना है)

I hereby declare that I am not married/have not got married during the past six months.

(To be furnished by widowers and unmarried daughters once every six months in May/November)

हस्ताक्षर/ Signature

स्थान

Place

पेन्शनर का नाम

Name of Pensioner

तारीख

Dated

पी.पी.ओ. नं./ P.P.O. No.

मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार यह प्रमाणित करता हूं/ करती हूं कि उपर्युक्त घोषणा सही है।

I certify to the best of my knowledge and belief that the above declaration is correct.

किसी जिम्मेदार अधिकारी अथवा सुपरिचित व्यक्ति के हस्ताक्षर

Signature of a responsible officer or a well-known person

स्थान

Place

नाम

Name

तारीख

Dated

पद

Designation